

किलोवाट बिजली पैदा हो सकेगी और किस प्रकार इसका उपयोग किया जायेगा ?

t [GENERATION OF POWER AT NEYVELI

*614. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of MINES AND FUEL be pleased to state the outcome of the discussion with the Soviet experts for increasing the power generating capacity at Neyveli from 2,50,000 kw to 4,00,000 kw under the Soviet 337.5 million Rouble Credit of 1959; by when 4 lakh kw power will be generated under this scheme and how it will be utilised?]

THE MINISTER OF MINES AND FUEL (SHRI K. D. MALAVIYA) : Negotiations with the Soviet authorities for the supply of plant and machinery for the Neyveli thermal power expansion scheme are in progress. The expansion scheme is expected to be completed by the end of the Third Five Year Plan period. Out of 4 lakh kw of power which will be generated when the thermal expansion scheme is fully implemented, 129,000 kw of power will be consumed by industrial units including power station auxiliaries, the expanded mine itself, and residential colonies. After allowing for a stand-by unit for periodical overhaul, the net firm power which will be fed into the Madras State Electricity Grid will be between 171,000 kw and 221,000 kw.

‡[खान तथा ईंधन मंत्री(श्री के० डी० मालवीय) : नेवेली तापीय विद्युत् विस्तार स्कीम के लिये संयंत्र तथा मशीन की सप्लाई के लिये रूसी अधिकारियों के साथ चल रही बात-चीत प्रगति पर है। तीसरी पंच वर्षीय योजना काल के अन्त तक इस विस्तार स्कीम के पूरे होने की आशा है। जब तापीय विस्तार स्कीम पूर्णतया कार्यान्वित हो जायेगी तब विद्युत् के ४ लाख

†[] English translation.

‡[] Hindi translation.

किलोवाट में से, जो कि जनन होगा, विद्युत् के १,२९,००० किलोवाट का औद्योगिक एककों (industrial units) द्वारा, जिसमें विद्युत् केन्द्र और औद्योगिक (Power Station auxiliaries) विस्तृत खदानों और रिहायशी बस्तियां शामिल हैं, उपभोग किया जायेगा। सामयिक पुनः कल्पना (Periodical Overhaul) के लिये एक समोप आश्रित एकक (a stand-by unit) में विद्युत् के उपभोग के पश्चात् शेष दृढ़ पावर (net firm power) जोकि १,७१,००० किलोवाट और २,२१,००० किलोवाट के बीच होगी, मद्रास राज्य बिजली ग्रिड (Madras State Electricity Grid) को दी जाये।]

श्री राम सहाय : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकूंगा कि इस बिजली का उपयोग गांवों के लिये कितना हो सकेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इसकी बिजली का उपयोग गांवों और शहरों दोनों के लिये हो सकेगा। लेकिन गांवों और शहरों में इसका बटवारा किस हिसाब से होगा, इस चीज को मद्रास सरकार ही बतला सकती है और हमको इसकी सूचना नहीं है।

दरीबों तांबा परियोजना

*६१५. श्री राम सहाय : क्या खान तथा ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दरीबों तांबा परियोजना में कितना तथा कितने मूल्य का तांबा निकला और इस प्रकार निकले तांबे का मूल्य उसके उत्पादन व्यय की तुलना में कितना है ?

DARIBO COPPER PROJECT

*615. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of MINES AND FUEL be pleased to state the quantity and value

t[] English translation.

of copper produced at the Daribo Copper Project and how the value of copper so obtained compares with its cost of production?]

खान तथा ईषन मंत्रालय में उपनंत्री (श्री आर० एम० हजरनवीस) : दरीबो में तांबा निक्षेपों के समुपयोजन (exploitation) का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०को सौंपा गया है। उपर्युक्त क्षेत्र अभी भी निगम की ओर से भारतीय खान विभाग के अन्वेषणाधीन है और उनकी अन्तिम रिपोर्ट को १९६२ के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है। इस क्षेत्र का उत्पादन खेतरी खानों के, जिसके १९६५ तक तैयार होने की आशा है, उत्पादन के समकालीन होगा।

[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF MINES AND FUEL (SHRI R. M. HAJARNAVIS): The exploitation of copper deposits at Daribo has been entrusted to the National Mineral Development Corporation Limited. The area is still under exploration by the Indian Bureau of Mines On behalf of the Corporation and their final report is expected to be available by the end of 1962. The production from this area is to synchronise with the production from Khetri Mines which is expected to be ready by 1965.]

श्री राम सहाय : क्या मैं मानवीय मंत्री जो से जान सकूंगा कि इस चीज का कितना उत्पादन हो सकेगा ?

श्री आर० एम० हजरनवीस : २०० टन होने की उम्मीद है।

श्री राम सहाय : यह २०० टन साल भर में होगा या एक दिन में होगा ?

श्री आर० एम० हजरनवीस : २०० टन ओर (ore) प्रति दिन उत्पादन होगा।

†[English translation.

SHRI N. C. KASLIWAL: May I know how much time it will take for the copper smelting plant to be set up, and what will be the procedure? Whose collaboration is going to be sought?

SHRI K. D. MALAVIYA: Sir, the Khetri copper smelter is proposed to be completed towards the end of 1964-65. It is wholly under the public sector, and the National Mineral Development Corporation, which is an autonomous company functioning under the Ministry of Mines and Fuel, is in charge of implementing the scheme. They are getting it done with the advice of firms of consultants. The scheme as a whole will be under the control of the Corporation.

श्री राम सहाय : क्या मैं जान सकूंगा कि भारत को इस चीज की जितनी आवश्यकता होती है वह किस हद तक इससे पूरी हो जायेगी ?

श्री आर० एम० हजरनवीस : २१ हजार टन सालाना उत्पादन इस चीज का होगा, ऐसा हमारा अंदाजा है ?

SHRI M. R. SHERVANI: May I know the total amount of annual expenditure on exploration of copper in the country?

SHRI R. M. HAJARNAVIS: I do not have the figures with me; I require notice.

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के लिये पुस्तकों का खरीदा जाना

*६१६. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के लिये विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें खरीदने के सम्बन्ध में उ का मंत्रालय क्या नीति अपनाता है और क्या ये पुस्तकें किसी पर्व निश्चित प्रोग्राम के अन्तर्गत खरीदी जाती